

सामान्य अनुदेश

- पासबुक जमाकर्ता के लिए, उसके द्वारा किए गए लेनेदेन का रिकार्ड है और इसमें दर्शाये गए शेष पर वैधानिक रूप से दावा नहीं किया जा सकता।
- जमाकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि यह पासबुक में दर्शाये शेष की पुष्टि संबंधित डाकघर से करें और डाकघर अपने रिकार्ड में दर्शाई जानेवाली वास्तविक राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- किसी भी प्रयोजन के लिए पासबुक डाकघर को सौंपने पर डाकघर से उसकी मुद्रित पावती हमेशा लें।
- पासबुक को हमेशा निजी अभिरक्षा में रखें, किसी अन्य व्यक्ति को पासबुक सौंपने की स्थिति में पैसे की किसी प्रकार की हानि होने पर डाकघर उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- पासबुक में कहीं पर भी नमूना हस्ताक्षर न करें।
- लेन-देन के बाद पासबुक में दर्ज शेष की जांच और किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर पोस्टमास्टर से तुरंत संपर्क करें।
- पासबुक गुम होने की स्थिति में पोस्टमास्टर को तुरंत लिखित में शिकायत करें।
- यदि पते में कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना पोस्टमास्टर को दें।
- प्राधिकृत एजेंट सहित किसी भी व्यक्ति को हस्ताक्षर किया हुआ बिना भरा (ब्लैंक) निकासी फार्म न सौंपें।
- अपने खाते से पैसे की निकासी के लिए पोस्टमास्टरों या प्राधिकृत एजेंटों को संदेशवाहक के तौर पर नियुक्त न करें।

Photograph

जमाकर्ता का नाम

Depositor(s) Name

1. Rahul Kumar

2.

Mandatory
For SCSS 2004

3. G. K. Ashram Road

पता/Address..... Pune

PLEDGE TO THE
Rup. Cur. Dr. Purne
E.E. [N] ... DATE 7/3

जन्म-तिथि/Date of Birth

पिता/अभिभावक का नाम

Name of Parent/Guardian DY. PR. PURNEA N. O.
(in case of minor)

जारी करने की तारीख/Date of Issue 13.10.2017

खाते का प्रकार TD 3 years चेक खाता (हाँ/नहीं)
Account Type TD 3 years Cheque A/c (Y/N)

खाता/Account No. 3794010088

Pan No. (for SCSS-2004 only)

पोस्टमास्टर

नामांकन

रजिस्ट्री की तारीख

के हस्ताक्षर

की संख्या

13.10.2017

Signature

Nomination

Date of

of Postmaster

Number

Registration

तारीख
Date

लेनदेन का विवरण
Particulars of Transaction

जमा
Deposit

निकासी
Withdrawal

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

13¹⁰/₁₇ M Pility two thousand

52000 ————— 52000

Dy. Postmaster
Pune H.O. 854301
13-10-2017

General Insruction

1. Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in it cannot be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.
3. Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.
4. Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the passbook.
6. Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in case of any discrepancy.
7. In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the postmaster.
9. Do not hand over blank signed withdrawal forms to any person including authorized agents.
10. Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawals of money from your account.

Photograph	जमाकर्ता का नाम Depositor(s) Name
	1. <u>Rahul Kumar</u>
Mandatory For SCSS 2004	2. _____
	3. _____
पता/Address	<u>G. K. Ashram Road</u> <u>Purnea</u>
Date of Birth	_____
Name of Parent /Guardian	_____
(in case of minor)	_____
जारी करने की तारीख	<u>7-5-2018</u>
Date of Issue	_____
खाते का प्रकार	चेक खाता (हां/नहीं)
Account Type	<u>TD 3 years</u> Cheque A/c (Y/N)
खाता/Account No.	<u>4035326227</u>
Pan No.	_____ (for SCSS - 2004 only)
पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर	नामांकन की संख्या
<u>7/5/18</u>	रजिस्ट्री की तारीख
	<u>7/5/18</u>
Signature of Postmaster	Nomination Number
	Registration

तारीख
Date

लेन देन का विवरण/दिनांकित मोहर (यदि पासबुक प्रिन्टर काम
नहीं कर रहा है और प्रविष्टि मैनुअल रूप से की गई है)
Particulars of Transactions/Date Stamp (in case passbook
printer is not in use and entry made manually)

7⁵/₁₈ Sixty thousand only

जमा
Deposit/
Credit

निकासी
Withdrawal/
Debit

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

60000

60000

Dy. Postmaster
Pune H.O.-854301

(2)

(3)

General Instruction

1. Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in it cannot be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.
3. Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.
4. Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the passbook.
6. Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in case of any discrepancy.
7. In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the postmaster.
9. Do not hand over blank signed withdrawal forms to any person including authorized agents.
10. Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawals of money from your account.

Photograph

जमाकर्ता का नाम

Depositor(s) Name

1. Rahul Kumar

Mandatory

For SCSS 2004

2.

3.

पता/Address

G. K. Ashram Road
Purnea

Date of Birth

Name of Parent /Guardian

(in case of minor)

जारी करने की तारीख

7.5.2018

Date of Issue

खाते का प्रकार

TD 3 years

चेक खाता (हां/नहीं)

Account Type

TD 3 years

Cheque A/c (Y/N)

खाता/Account No.

4035343590

Pan No.

(for SCSS - 2004 only)

पोस्टमास्टर

नामांकन

रजिस्ट्री की तारीख

के हस्ताक्षर

की संख्या

PLEDGE TO THE

RECEIPT

DATE

Signature of Postmaster

Nomination Number

Date of Registration

तारीख
Date

लेन देन का विवरण/दिनांकित मोहर (यदि पासबुक प्रिन्टर काम
नहीं कर रहा है और प्रविष्टि मैनुअल रूप से की गई है।)
Particulars of Transactions/Date Stamp (in case passbook
printer is not in use and entry made manually)

7⁵/₁₈ By Pibteem House & Co

जमा
Deposit/
Credit

निकासी
Withdrawal/
Debit

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

15000

15000

Dy. Postmaster
Purnea H.O.-854301

General Insruction

1. Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in it cannot be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.
3. Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.
4. Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the passbook.
6. Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in case of any discrepancy.
7. In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the postmaster.
9. Do not hand over blank signed withdrawal forms to any person including authorized agents.
10. Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawals of money from your account.

Photograph	जमाकर्ता का नाम Depositor(s) Name	1. <u>Rahul Kumar</u>
	Mandatory For SCSS 2004	2. _____
		3. _____
पता/Address		<u>G. K. Ashram Road</u> <u>Purnea</u>
Date of Birth		
Name of Parent /Guardian		
(in case of minor)		
जारी करने की तारीख		<u>7.5.2018</u>
Date of Issue		
खाते का प्रकार	<u>TD 3 year</u>	चेक खाता (हां/नहीं)
Account Type		Cheque A/c (Y/N)
खाता/Account No.	<u>4035341442</u>	
Pan No.	(for SCSS - 2004 only)	
पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर	नामांकन की संख्या	रजिस्ट्री की तारीख
PLEDGE TO THE E.E. L.N. DATE 7.5.18 BY: P.M. PURNEA		
Signature of Postmaster	Nomination	Date of Registration

तारीख
Date

लेन देन का विवरण/दिनांक में मोहर (यदि पासबुक प्रिंटर काम नहीं कर रहा है और प्रविष्टि मैनुअल रूप से की गई है।)
Particulars of Transactions/Date Stamp (in case passbook printer is not in use and entry made manually)

जमा
Deposit/
Credit

निकासी
Withdrawal/
Debit

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

7⁵/₁₈ Five thousand

5000

5000

Dy. Postmaster
Purnea H.O.-854301

PLEDGE TO THE
DATE

(2)

(3)

General Instruction

1. Passbook is a record of transactions for the information of the depositor and balance shown in it cannot be claimed legally.
2. It is the duty of the depositor to confirm balance shown in the passbook from the concerned post office and post office is legally liable to pay the amount actually available in its record.
3. Always take a printed receipt from the post office when you hand over the passbook to the post office for any purpose.
4. Always keep the passbook in your personal custody and post office will not be responsible for any loss of money in case passbook is handed over to any other person.
5. Do not keep specimen signatures in the passbook.
6. Check balance after transaction written in the passbook and contact postmaster immediately in the case of any discrepancy.
7. In case of loss of passbook, report the matter in writing to the postmaster immediately.
8. Intimate change of address if any to the postmaster.
9. Do not hand over blank signed withdrawal forms to any person including authorized agents.
10. Do not appoint postmasters or authorised agents as messengers for withdrawals of money from your account.

Photograph

जमाकर्ता का नाम
Depositor(s) Name

1. Rahul Kumar

Mandatory
For SCSS 2004

2.

3.

पता/Address

G. K. Ashram Road
Purnea

Date of Birth

PLEDGE TO THE
Rup Kumar Purnea
E.E. DATE 17/9

Name of Parent /Guardian

(in case of minor)

DY. PM. PURNIA H.O.

जारी करने की तारीख

Date of Issue

13-10-2017

खाते का प्रकार

Account Type

TD 3 years चेक खाता (हां/नहीं)
Cheque A/c (Y/N)

खाता/Account No.

3794008184

Pan No.

(for SCSS - 2004 only)

पोस्टमास्टर
के हस्ताक्षर

नामांकन
की संख्या

रजिस्ट्री की तारीख

Signature of
Postmaster

Nomination
Number

Date of
Registration

तारीख
Date

लेन देन का विवरण/दिनांकित मोहर (यदि पासबुक प्रिन्टर काम नहीं कर रहा है और प्रविष्टि मैनुअल रूप से की गई है।)
Particulars of Transactions/Date Stamp (in case passbook printer is not in use and entry made manually)

13¹⁰/₁₇ Rs Fifty three thousand

जमा
Deposit/
Credit

निकासी
Withdrawal/
Debit

बकाया
Balance

स.ह.
Initial

53000

53000

Dy. P. S. D. S. D. S.
Purnea H.O.-854301